



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-11-06	2021-11-07	2021-11-08	2021-11-09	2021-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	16.0	17.0	18.0	19.0	18.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	55	55	60	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	320	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	5	4	2	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 16.0 से 19.0 व 6.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0-8.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 10 से 16 नवम्बर के दौरान राज्य में वर्षा, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम व अधिकतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल के लिए एनडीवीआई 0.35-0.5 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मैप 7 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक अत्यधिक नमी की स्थिति को दर्शाता है। रबी फसलों की बुवाई हेतु खेत जुताई एवम् बीज बुवाई कार्य जारी रखें। बुवाई पूर्व बीज शोधन अवश्य करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा अतः फसलों व सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	सिंचित दशा में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फसल की बुवाई पूर्ण करें तथा घाटियों व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुवाई द्वितीय सप्ताह तक करें।
जौ	जौ फसल की बुवाई पूर्ण करें

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गुर्दे की फलियाँ / राजमा	घाटियों व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैयार फसल की कटाई कर लें तथा 2-3 दिन सुखाने के बाद गहाई कर दाने अलग कर लें। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलियों में दाना बनने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर लें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	तैयार फसल की कटाई कर लें तथा 2-3 दिन सुखाने के बाद गहाई कर दाने अलग कर लें।
मसूर की दाल	मसूर की बुवाई पूर्ण करें तथा पिछले माह बोई गयी फसल में यथा समय निराई कर खरपतवार निकाल लें।
चना	पर्वतीय क्षेत्रों में चने की बुवाई पूर्ण करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	फूलगोभी की फसल में यूरिया की आपूर्ति के साथ गुड़ाई करें।
सब्जी पीईए	पर्वतीय क्षेत्र में सब्जी मटर की बुवाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जुलाई माह में पैदा हुए 4-6 माह के बछियों को संक्रामक गर्भपात का टीकाकरण नवम्बर माह तक अवश्य करा दें। किसी भी टीकाकरण के दो हफ्ते पहले पशुवत्सो को पिपराजीन नामक कृमिनाशक दवा प्राथमिकता के आधार पर दें क्योंकि ये दवाई गोल कृमिनाशक के रूप में काफी प्रभावी पायी गयी है।